



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 93]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2002/माघ 8, 1923

No. 93]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2002/MAGHA 8, 1923

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2002

का.आ. 113 (अ).—“जबकि भूमिगत विद्युत, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, टेलीग्राफ तथा विदेश संचार केबल तथा समान प्रकार के अन्य भूमिगत केबल कार्य, विद्युत लाइनें जलापूर्ति लाइनें तथा सीवरेंज पाइप लाइनें बछाने सहित भवन प्रचालनों में अथवा सड़कों, रनवे के निर्माण अथवा रखरखाव” के अनुसूचित नियोजनों में नयोजित कर्मचारियों की श्रेणियों को मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने या संशोधित किए जाने संबंधी कतिपय प्रस्तावों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, (1948 का 11) की धारा 4 की उपधारा (i) के खण्ड (I) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) और खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 5 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना का. आ. संख्या 348 (अ) के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II , खण्ड -3 , उप खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था । उक्त अधिसूचना में, अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो माह की अवधि समाप्त होने से पहले इससे प्रभावित होने वाले सभी संबंधितों से आपत्तियों तथा सुझाव मांगे गए थे ।

जबकि उक्त प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उप धारा (i) के खण्ड (i) और धारा 5 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (i) के खण्ड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 12.7.1994 की अधिसूचना का.आ. संख्या 513 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, तथा सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात उपर्युक्त पैरा (1) में उल्लिखित अनुसूचित नियोजन में नयोजित कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों को इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए अनुसार संशोधित करती है।

मजदूरी की संशोधित न्यूनतम दरें जो 1.10.2001 से प्रभावी होंगी में (क) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के भाग- I के कालम (2) में तथा इसके भाग I के कालम (i) में वर्णित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को देय मजदूरी की मूल दरें और (ख) अनुसूची के भाग II में विशेष भत्ता जिसे इसके बाद

परिवर्ती मंहगाई भत्ता कहा जाएगा, शामिल होगा। परिवर्ती मंहगाई भत्ते को मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा अनुसूची के भाग - 11 में उल्लिखित दरों पर क्रमशः 30 जून तथा 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाली छ ... के अन्तराल पर समायोजित किया जाएगा।

अनुसूची

भाग - 1

कर्मचारों की श्रेणी			
1	मजदूरी का न्यूनतम दरें (प्रतिदिन रुपयों में) जिसमें सब शामिल हैं		
	क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1	2	3	4
अकुशल:			
बजरी फैलाने वाला, वयस्क पुरुष/महिला, बेलदार, किशोर (12 वर्ष से उपर के) लड़के, लड़कियां, बालक), बीटर महिला बैल-वुमन), चैनमैन, नाविक, बाल्टी वाला, वाहक (पत्थर), वाहक (पानी), गाड़ीवाहन, केयरटेकर (पुल), क्लीनर क्रेन, ट्रैक, राखगर्त के लिए सिंडर), चौकीदार, कंक्रीट हाथ से मिलाने वाला) (दफादार, ड्राइवर) (बैल, ऊंट, गधा, खच्चर) झंडीवाला, झंडीवाला (ब्लास्ट ट्रेन) गेट मैन, गैंगमैन, गेटिंगमैन (स्थायी पथ) हैंडलमैन, जम्पर मैन, कामिनी (महिला कार्य), खलासी (पुरुष/महिला, लड़के/लड़कियां, 1/11) पुल, विद्युत, मैरीन, मोपलाह, भंडार, स्टीम, रोड़, तट, रोलर सर्वे, श्रमिक (गार्डन) मजदूरी होल कटर, लारी, प्रशिक्षु, पेट्रोलमैन, चपरासी, तलाशीकर्ता, सिंगनलमैन, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग), स्वीपर, टाल बाय, टाइल टर्नर, ट्राली मैन, वक्स कन्ट्रोलर, वाल्वमैन, वाचमैन, वाटरमैन, सफेदीवाला, बूडरमैन, बूडरवोमैन, बोरीमैन, कोलमैन, कंडेसर, परिचर, घास काटने वाला मुच्छर जमादार, कन्डेन्सर परिचर, शंटर अन्य कोई भी प्रवर्ग जो कि अकुशल प्रकृति के हों चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं।	65/- रु.	63/- रु.	52/- रु.
अर्द्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी			
बेलचवाला, भिश्ती, भिश्ती (मुश्क सहित), नाववाला (प्रधान) भंजक, भंजक (चट्टान, चट्टान पत्थर, प्रस्तर धातु, पत्थर) बेंत बुनने वाला, चैनमैन (प्रधान) चारपाई कसने वाला, जांच पड़ताल कर्ता, चौकीदार (प्रधान), सुरक्षा गार्ड (बिना हथियार), क्रेकर, दफ्तरी, डालीमैन, सहायक ड्रिलर, चालक (स्किन), उत्खनक, फैरोमैन, फायरमैन, फायरमैन (ईंटों का भट्टा, स्टीम रोड रोलर) गेटकीपर, चरामी थेचर, शीशेवाला, ग्रेटर ग्रीसर एवं फायरमैन, ग्राइंडर, हथोड़े वाला, सहायक (कारीगर), सहायक (आराकश), जमादार, की मैन, खलासी (प्रधान सर्वेक्षक, रिवटर्स मोपला गैंग पर्यवेक्षक), श्रमिक (चट्टानकर्तन),	78/- रु.	76/- रु.	63/- रु.

लश्कर, माली (प्रधान) मैट,मैट (लोहार, सड़क,काष्ठकार) इंजिन चालक और/या फीडर, फिटर गैंग खलासी मजदूर राज, स्थायी पथ, पम्प ड्राइवर, टर्नर, मजदूर (भारी वजन), चार्जमैन, मिस्त्री (प्रधान) मुकादम, रात्रिगार्ड, हरकारा (डाक), तेलवाला, खदानकार, खदान प्रचालक, स्टोन मैन भंडार वाला, स्टॉकर, थेचर, स्टाकर और बॉयलर मैन, थुम्बामैन (स्पेडकर्मी), टिंडल, टालीमैन (प्रधान, मोटर), पिटर(सहायक अर्द्ध कुशल), जमादार (अर्द्धकुशल) मैट (पत्थर), पम्प परिचर वाहक, ब्रेकमैन, कोल्डरमैन, रसोइया, डांडी, फराश, हैक्सामैन, सहायक (लोको, क्रेन, ट्रक) कसाब, खलासी (संरचना) प्रयोगशाला परिचर, मांझी (नाववाला), मसालची पी.एम.मेट्स, प्वाइंट्स मैन, सीकमी, टोपाज, तोपकार (बड़े पत्थर तोड़ने वाला) ट्राली जमादार विचमैन, हाजिरी लगाने वाला, सहायक वायर मैन, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे, वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि अर्द्धकुशल प्रकृति के हों।

कुशल:

सहायक मिस्त्री,आर्मेचर बाइंडर श्रेणी II और III भंडारी, लोहार,लोहार (चयन श्रेणी, II और III वर्ग II और III) बायलरमैन, वायरलरमैन, श्रेणी II और III, बायलर फोरमैन श्रेणी II, कार्य (सहायक), ईंट बिछाने वाला, ईंट बिछानेवाला (चयन श्रेणी,वर्ग II), विस्फोट करने वाला, काष्ठकार, काष्ठकार (चयन श्रेणी II) और III वर्ग I और III सहायक वी.आई.एम रोड), केबिनेट बनाने वाला, सुरक्षा गार्ड (शस्त्र सहित) केनमैन, स्लोटेक्स, कटर बनाने वाला, चार्जमैन वर्ग श्रेणी II और III, काष्ठकार (साधारण), जांच पड़ताल कर्ता (कनिष्ठ), चिक बनाने वाला, चिकवाला, कनिष्ठ कंक्रीट मिश्रण मिश्रक, कंक्रीट मिश्रक प्रचालक, मोची, कोर मेकर, चालक (मोटरयान,मोटर वाहन चयन श्रेणी, मोटर लारी, मोटर लारी श्रेणी II, लारी गेड II, डीजल इंजिन, डीजल इंजन श्रेणी II, यांत्रिक रोड रोलर, आई.सी.और सीमेन्ट मिश्रक आदि रोड रोलर, रोड रोलर चालक श्रेणी II,चालक (इंजन स्थिर, स्टोन, क्रशर,ट्रैक्टर/बुलडोजर, स्टीम रोड रोलर, जल पम्प यांत्रिक सहायक,रोड रोलर,यांत्रिक स्टीम, क्रेन,बुल डोजर सहित, ट्रैक्टर यांत्रिक, परिवहन,इंजन, स्पिर और रोड रोलर, वायलर इंजन परिचर, प्रचालक (स्टोन क्रेशर यांत्रिक), डिस्टेम्पर, बिजली मिस्त्री श्रेणी II,वर्ग II, और वर्ग III), फिटर (चयन श्रेणी, श्रेणी II,III, वर्ग II, III, सहायक पाइप, वर्ग II, लाइन वर्ग II, पाइपलाइन, कुमुक के लिए डंडे मोड़ना एवं यांत्रिक और नलसाज)घरामी (प्रधान), ग्लेजियर, विस्फोटन के लिए छिद्र ड्रिलर ,जॉयनर (केबल, केबल श्रेणी, II), लाइनमैन ग्रेड II, III वी चालक श्रेणी II

100/-रु. 94/-रु. 80/--रु.

एच.टी./एल.टी., (राज, राज,) चयन श्रेणी, श्रेणी वर्ग ॥ और ॥॥, वर्ग ॥ और ॥॥, वर्ग ख मिस्त्री), स्टोन, (स्टोन वर्ग ॥, ईंट का काम, पत्थर का कार्य), ईंट बिछाने वाला, टाइल फ्लोरिंग, बी.आई.एम., मुक्कदम (प्रधान) पत्थर कर्त्तन, साधारण मिस्त्री, मैकेनिक, यांत्रिक (वर्ग ॥, वातानुकूलन, वातानुकूलन, श्रेणी ॥, डीजल श्रेणी ॥, रोड रोलर श्रेणी ॥, सहायक, रेडियों) राज (घरामी), मिस्त्री, मिस्त्री श्रेणी ॥, वातानुकूलन श्रेणी ॥, स्थायी पथ, सर्वेक्षण संगतराश कार्य (राज वर्ग क, मोल्डर, मोल्डर (ईंट, टाइल), रंगसाज, रंगसाज (चयन श्रेणी, ग्रेड ॥ और ॥॥, वर्ग ॥ सहायक लाटर और पॉलिशगर, रफ (प्लास्टरकर्ता, प्लास्टरकर्ता)(राज श्रेणी ॥), नलसाज, नलसाज चयन श्रेणी वर्ग ॥, सहायक वरिष्ठ कनिष्ठ, मिस्त्री, श्रेणी ॥ (नलसाज मिस्त्री नलसाज एवं फिटर, पॉलिशगर, पॉलिशगर (फर्श), पम्प चालक, पम्प चालक (चयन श्रेणी, श्रेणी ॥ और ॥॥, वर्ग ॥) पम्प इंजिन चालक, चयन श्रेणी पी ई चालक, पम्प वाला, (सहायक, नलसाज पॉलिशकर (स्प्रै सहित) श्रेणी ॥, रतनमैन, रिबिट कटर (सहायक) रिबिटर, रिबिटर (कटर) सड़क निरीक्षक श्रेणी ॥, रेलवे प्लेट लैयर, रोड़ वेन्डर, आराकश, आराकश (चयन श्रेणी वर्ग ॥), सरंग, सरंग पाइल ड्राइविंग पैंट्स बायलर सहित, शेपमैन, पारी प्रभारी, स्प्रै मैन, स्प्रै मैन (रोड़), संगतराश, संगतराश, (चयन श्रेणी ॥ वर्ग ॥) स्टोन चिसलर, स्टोन सिसलर (वर्ग ॥) पत्थर विस्फोटक उप ओवरसियर (अनर्हित), सर्वेक्षक, सर्वेक्षक(सहायक) दर्जी, दर्जी अपहोलस्ट्री (तार स्प्रेयर, तारमैन, लाइनमैन, टाइलर वर्ग ॥, दीवार) (फर्श, छत्ते), टाइलर, (चयन श्रेणी), टीनकार, टीनकार, (चयन श्रेणी, श्रेणी ॥ और ॥॥ वर्ग ॥) ठठेरा ट्रेलर्स, टर्नर, सोफासाज, सोफासाज, (श्रेणी ॥ और ॥॥) रंगसाज स्प्रै (वर्ग ॥), लकड़ी काटने वाला, लकड़ी काटने वाला चयन श्रेणी, लकड़ी काटने वाला श्रेणी ॥, वर्ष सिरकार, झलाईगर, गैस झलाईगर, झलाईगर, (वर्ग ॥, पुल कार्य) कूप निमज्जक, सफेदी वाला, सफेदीवाला (चयन श्रेणी,) वर्ग ॥), वायरमैन, वायरमैन (श्रेणी, ॥ और ॥॥, यांत्रिक, विद्युत) ह्वाइट वाशिंग एंड कलर वाशिंग मैन, वातिक औजार प्रचालक, प्रचालक (फिटर), वोरमैन (बेधक), छिलाईगार एवं पिसाईगार, ट्यूब बेल, रसोइया (प्रधान) ड्रिलर (कूप वेधन) चालक (लोको/ट्रक) बिजली मिस्त्री (सहायक) यांत्रिक (नलकूप), मिस्त्री (स्टेल, टेलीफोन) मीटर वाचक, मौसम प्रेषक, नावधानी प्रचालक (वैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम्प, शैल्फ, संपीडक, क्रेन, डौरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रेगलाइन, ड्रिल डम्पर, उत्खनक, फोर्क, लिफ्ट जनित्र ग्रेडर जैक हैम्पर और पटरी तोड़ने वाला लोडर, पम्प, पाईप चालक स्क्रैपर, स्क्रीनिंग संयंत्र शोवेल, ट्रैक्टर वाइब्रेटर, वेटवेचर) रेल गार्ड,

<p>मरम्मत कर्ता (बैटरी), शारपर/स्लोटर, स्प्रेयर(अशाल्ट), स्टेशन मास्टर, सर्वक्षक (सिल्ट), दस्तकार रेलगाड़ी परीक्षक, टर्नर/मिलर, टायर कलकेनाइजर कोई अन्य प्रवर्ग चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जाएं जो कि कुशल प्रकृति के हों ।</p>	
<p>अत्यधिक कुशल:</p>	
<p>आर्मेचर बाईंडर श्रेणी । , लौहकार, श्रेणी । और वर्ग ।, वॉयलरमैन श्रेणी ।, वॉयलरमैन फारेमैन श्रेणी ।, ईट बिछाने वाला वर्ग ।, केबल संयोजक श्रेणी ।, काष्ठकार श्रेणी । और वर्ग ।, सेलो कटर और सजावटकार, चार्जमैन वर्ग ।, जांच पड़तालकर्ता (ज्येष्ठ), चालक लारी श्रेणी , मोटर लारी श्रेणी ।, मोटर वाहन वर्ग । और डीजल इंजिन श्रेणी ।, रोडरोलर श्रेणी ।, पम्प श्रेणी ।, पम्प वर्ग ।, पम्प वर्ग, बिजली मिस्त्री श्रेणी । और वर्ग ।, फीटर (श्रेणी । और वर्ग) पाइप वर्ग । (प्रधान), फोरमैन, (सहायक) लाइनमैन श्रेणी ।, राज (कुशल) श्रेणी । वर्ग ।) मास्टरिंग, यांत्रिक वर्ग । और वर्ग ।।, यांत्रिक (डीजल श्रेणी और रोडरोलर श्रेणी ।, वातानुकूलन श्रेणी । /वर्ग ।/मिस्त्री श्रेणी ।, मिस्त्री) वातानुकूलन श्रेणी ।, ओवरसियर, ओवर सियर (ज्येष्ठ और कनिष्ठ) रंगसाज श्रेणी ।, वर्ग ।, स्प्रे), प्लास्टरकर्ता (राज) वर्ग ।, नलसाज (प्रधान, वर्ग ।) मिस्त्री श्रेणी ।, रंगसाज (स्प्रे सहित) वर्ग , सड़क निरीक्षक वर्ग, आराकश श्रेणी ।, स्टोनकटर वर्ग ।, स्टोन कटर श्रेणी । , स्टोन निल्लर श्रेणी ।, स्टोन मिस्त्री श्रेणी ।, उप ओवरसियर (योग्यता प्राप्त,) टाइलर वर्ग ।, टीनकार श्रेणी । वर्ग ।, सोफासाज श्रेणी ।, वार्निशकार वर्ग ।, झलाइगर एवं फीटर और वातानुकूलन यांत्रिक, झलाईकार (गैस) वर्ग , सफेदी वाला वर्ग, वायर मैन श्रेणी ।, वर्ग , काष्ठ काटनेवाला वर्ग, घिसाईकार (औजार) श्रेणी ।, प्रचालक (बैचिंग प्लांट) श्रेणी ।, क्लैम्प शैल श्रेणी ।, काम्प्रेसर श्रेणी ।, क्रैन श्रेणी ।, डीजल इंजिन श्रेणी ।, डोजर ग्रेड ।, ड्रेगलाइन वर्ग ।, ड्रिल श्रेणी ।, डम्पर श्रेणी ।, उत्खनक श्रेणी ।, फोर्क लिफ्ट श्रेणी ।, जनित्र श्रेणी ।, ग्रेडर श्रेणी , लीडर वर्ग , पाइल ड्राइविंग वर्ग, पम्प वर्ग, स्क्रेपर वर्ग, स्क्रेनिंग संयंत्र श्रेणी ।, शॉवल श्रेणी ।, शॉवल और ड्रेगलाइन ट्रैक्टर श्रेणी ।, वाइब्रेटर श्रेणी ।, रिगर श्रेणी ।, रिगर श्रेणी ।।, शार्पर/स्लेटर श्रेणी ।, शॉवल और ड्रेगलाइन, ट्रैक्टर वर्ग ।, (दस्तकार वर्ग ।, टर्नर/मिलर श्रेणी । टायर वॉलकेनाइजर श्रेणी ।, कार्य सहायक श्रेणी ।, कोई अन्य प्रवर्ग जो अत्यधिक कुशल प्रवृत्ति के हों, चाहे वे किसी भी नाम से पुकारे जायें</p>	<p>118/-रु. 116/-रु. 94/-रु.</p>

लिपिकीय :

एम.सी.लिपिक, मुंशी (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), भंडार लिपिक (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), निगमकर्ता, भंडार रक्षक, भंडार रक्षक (श्रेणी I, II, मैट्रिकुलेट II, नान मैट्रिकुलेट), मिलान लिपिक, समय पाल, समयपाल, (मैट्रिकुलेट, नान मैट्रिकुलेट), बुक कीपर, कार्य मुंशी (अधीनस्थ), लेखालिपिक, लिपिक, संगणक, टेलीफोन प्रचालक, टंकक, अन्य कोई प्रवर्ग चाहे जिस नाम से पुकारा जाए जो कि लिपिकीय प्रकृति के हों ।	100/-रू.	94/-रू.	80/-रू.
---	----------	---------	---------

भाग - II

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कर्मकार) में 448 अंक के बाद प्रत्येक अंक की वृद्धि अथवा कमी से संबंधित विशेष भत्ते की दर जो जून, 2001 को समाप्त अवधि हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक कर्मकार) का छमाही औसत है ।

	क्षेत्र क	क्षेत्र ख	क्षेत्र ग
1. अकुशल	15 पैसे	14 पैसे	12 पैसे
2. अर्ध-कुशल/अकुशल पर्यवेक्षक	17 पैसे	17 पैसे	14 पैसे
3. कुशल व लिपिकीय	22 पैसे	21 पैसे	18 पैसे
4. अत्यधिक कुशल	26 पैसे	26 पैसे	21 पैसे

स्पष्टीकरण

(1) (क) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ इस अधिसूचना के उपबंध में क्षेत्र “क” और “ख” में क्रमशः वह सभी स्थान समाविष्ट हैं जैसा कि कथित उपबंध में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्रों के संबंध में स्पष्ट किया गया है, और जिनमें नगर निगम अथवा नगर पालिका अथवा छावनी बोर्ड या किसी स्थान विशेष की अधिसूचित क्षेत्र समिति की परिधि से पन्द्रह किलोमीटर की दूरी के भीतर आने वाले सभी स्थान शामिल होंगे, और “ग” में अन्य सभी स्थान शामिल होंगे जिनका कि इस उपबंध में उल्लेख नहीं है तथा जिन पर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते के संबंध में प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जोड़े गये अथवा श्रेणी में बढ़ोत्तरी किए गये स्थानों को भी उपबंध में विनिर्दिष्ट वर्गीकरण के लिए उन्हीं तारीखों से जोड़ा गया समझा जाएगा ।

(2) “ग” वर्ग क्षेत्रों में जहां न्यूनतम मजदूरी क्षेत्रवार आधार पर नियत की गई है और जहां केन्द्रीय सरकार ने शीतकालीन भत्ता या पर्वतीय भत्ता या किसी अन्य विशेष भत्ते का संदाय मंजूर किया है, सड़को के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पत्थर पीसने तथा रनवे के निर्माण तथा अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों को, उन्हें देय न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त अधिनियम के अधीन नियत न्यूनतम मजदूरी से दस प्रतिशत अधिक भुगतान किया जाएगा ।

ऐसे स्थान जो समुद्र तल से 6000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं वहां 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी अदा की जायेगी ।

(3) न्यूनतम मजदूरी दरें और विशेष भत्ता दोनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, के अंतर्गत प्रवर्तनीय मजदूरी दरों के भाग हैं ।

गगन चुंबी इमारतें

(4) गगन चुंबी इमारतों अर्थात् चतुर्थ तल से ऊंची अथवा 30 फुट से अधिक ऊंची इमारतों में, एक दिन में एक घंटे के लिए भी नियुक्त किये गये कर्मकारों को समुचित श्रेणी हेतु न्यूनतम मजदूरी से 20 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा ।

(5) जहां किसी क्षेत्र में इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी को न्यूनतम दरें सरकारों द्वारा सड़कों के निर्माण या अनुरक्षण या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तोड़ने और पीसने, भवनों के अनुरक्षण और हवाई पट्टियों के सन्निर्माण और अनुरक्षण में नियोजित कर्मचारियों के लिए जिनके संबंध में राज्य सरकार समुचित सरकार है नियत की गई मजदूरी ही संदेय होगी ।

(6) सुरंग संबंधी कार्य में काम करने वाले कर्मकारों को इस अधिसूचना के अधीन समुचित प्रवर्गों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त 20 प्रतिशत और संदत्त किया जाएगा ।

(7) (क) अकुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिनमें मामूली अथवा कुछ भी कुशलता कोई दक्षता या अनुभव अपेक्षित न हो तथा जिसमें साधारण क्रियाएं सम्मिलित हैं ।

(ख) "अर्द्ध कुशल" से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से अर्जित कुछ मात्रा में कुशलता या दक्षता सम्मिलित है और जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण या मार्ग दर्शन के अधीन किए जाने योग्य है और इसके अंतर्गत अकुशल पर्यवेक्षी कार्य भी आता है ।

(ग) कुशल कार्य से वह कार्य अभिप्रेत है जिसमें कार्य के अनुभव से शिक्षु के रूप में किसी तकनीकी या व्यावसायिक संस्था में प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित कुशलता या दक्षता अपेक्षित है और जिसके पालन में स्वप्रेरणा और विवेकबुद्धि अपेक्षित हैं ।

(घ) "अत्यधिक कुशल कार्य" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या वृत्तिक प्रशिक्षण या कई वर्षों से व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित उच्चतर की पूर्णता और सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बावत किए जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है ।

(8) इस अधिसूचना द्वारा नियत की गई मजदूरी की न्यूनतम दरें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर भी लागू होंगी ।

(9) मजदूरी को न्यूनतम दरें सर्व समावेशी दरें हैं और उसमें "साप्ताहिक विश्राम दिवस" मजदूरी भी सम्मिलित है ।

(10) 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा व्यक्तियों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए मजदूरी को न्यूनतम दरें इस अधिसूचना द्वारा समुचित कार्य प्रवर्ग के वयस्क कर्मकार के लिए नियत की गई दरों का क्रमशः 80 और 100 प्रतिशत होगी ।

[फा. सं. एस-32017/4/99-डब्ल्यू सी(एम डब्ल्यू)]

डा० जी० एस० राम, श्रम एवं रोजगार सलाहकार

अनुबंध - 1		
“क” क्षेत्र		
अहमदाबाद (शहरी क्षेत्र)		मद्रास (शहरी क्षेत्र)
बंगलौर (शहरी क्षेत्र)	मुम्बई	नागपुर (शहरी क्षेत्र)
कलकत्ता (शहरी क्षेत्र)	हैदराबाद (शहरी क्षेत्र)	दिल्ली (शहरी क्षेत्र)
लखनऊ	कानपुर	
“ख” क्षेत्र		
आगरा (शहरी क्षेत्र)	गाजियाबाद (शहरी क्षेत्र)	मेरठ (शहरी क्षेत्र)
अजमेर (शहरी क्षेत्र)	गोरखपुर (शहरी क्षेत्र)	मुरादाबाद (शहरी क्षेत्र)
अलीगढ़ (शहरी क्षेत्र)	गुवाहाटी	मैसूर (शहरी क्षेत्र)
इलाहाबाद (शहरी क्षेत्र)	गुंटूर	नासिक (शहरी क्षेत्र)
अमरावती (शहरी क्षेत्र)	ग्वालियर (शहरी क्षेत्र)	पुणे (शहरी क्षेत्र)
		पटना (शहरी क्षेत्र)
अमृतसर	हुबली-धारवाड	रायपुर
औरंगाबाद (शहरी क्षेत्र)	इंदौर (शहरी क्षेत्र)	राजकोट
भावनगर/भोपाल	जबलपुर (शहरी क्षेत्र)	रांची (शहरी क्षेत्र)
बरेली (शहरी क्षेत्र)	जयपुर (शहरी क्षेत्र)	शोलापुर (शहरी क्षेत्र)
बीकानेर	जालंधर	श्रीनगर (शहरी क्षेत्र)
भुवनेश्वर	जमशेदपुर (शहरी क्षेत्र)	सूरत (शहरी क्षेत्र)
कालीकट (शहरी क्षेत्र)	जोधपुर	तिरुवनंतपुर (शहरी क्षेत्र)
चंडीगढ़ (शहरी क्षेत्र)	कोल्हापुर (शहरी क्षेत्र)	उल्लास नगर
कोचीन (शहरी क्षेत्र)	कल्याण	बडोदरा (शहरी क्षेत्र)
कोयम्बटूर (शहरी क्षेत्र)	कोचि	वाराणसी (शहरी क्षेत्र)
कटक (शहरी क्षेत्र)	कोटा	विजयवाड़ा (शहरी क्षेत्र)
दुर्गापुर	कोजिकोड	विशाखापट्टनम (शहरी क्षेत्र)
फरीदाबाद काम्पलेक्स	लुधियाना	वारंगल
	मदुरै (शहरी क्षेत्र)	

“ ग ” क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जिनका इस सूची में उल्लेख नहीं है।

MINISTRY OF LABOUR
NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2002

S.O. 113(E).—Whereas certain proposals to fix or revise the minimum rates of wages to the categories of employees employed in the scheduled employments of “Construction or maintenance of roads, runways or in the building operations including laying down underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph, and overseas communication cables and similar other underground cabling work, Electric Lines, Water Supply Lines and Sewerage Pipelines” were published in the Gazette of India, Extraordinary Part – II Section 3, sub-section (ii) under the Notification of the Government of India, Ministry of Labour vide S.O. No.348 (E) dated 5th April, 2001, in exercise of the powers conferred under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3, read with clause (i) of sub-section (1) of Section 4 of the Minimum Wages Act, (11 of 1948). In the said Notification objections and suggestions were sought from all, those likely to be affected thereby before expiry of two months from the date of publication of the Notification.

WHEREAS the objections and suggestions received on the said proposals have been considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under clause (a) & (b) of sub-section (1) of Section 3 read with clause (i) of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (2) of section 5 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Labour S.O.No.513 (E) dated 12.7.1994, the Central Government after consulting the Advisory Board, hereby revise the rates of minimum wages as specified in the schedule annexed hereto, payable to the employees employed in the scheduled employment mentioned in Para 1 above.

The revised minimum wages which will be effective from 1.10.2001 shall consist of (a) basic rates of wages as set out in column (2) of Part – I of the Schedule annexed to this notification and payable to the employees working in areas mentioned in Column (1) of Part – I thereof and (b) a special allowance, hereinafter referred to as Variable Dearness Allowance, in Part – II of the schedule. The Variable Dearness Allowance shall be adjusted by the Chief Labour Commissioner (Central) at an interval of six months ending on 30th June and 31st December respectively at the rate mentioned in Part – II of the schedule.

280 42/2002

SCHEDULE**PART – I**

Category of Worker	All inclusive minimum rates of wages (in Rs. per day)		
<u>Un-skilled</u> Bajri Spreader, Beldar Adult Male/Female, Adolescent-Boy/Girl (above 12 years, Child), Beater Woman Bell-Woman, Chain Man, Boat Man, Bucket Man, Carrier (Stone), Carrier (Water), Cartman, Caretaker (Bridge), Cleaner (Crane, Frack, Cinder for Yark Pit), Chowkidar, Concrete (Hand Mixer), Daffada, Driver (Bullock, Camel, Donkey Mule), Flag Man, Flagman (Blas Train), Gate man, Gangman, Gunman Permanent Way), Handleman, Jumper man, Kamine (Female work), Khalasi (Male/Female, Boy/Girl I/II), Brige, Electrical, Marine, Moplah, Store steam Road, Shore, Roller Surve, Labourer (Garden), Mazdoor, Hole Cutter, Lorry Trainees, Petrolman, Peon Searcher, Singnal Man, Strikers, Striker (Moplah Gang), Sweeper, Tati-Boy, Tile Tuner, Tolly man, Vale Controller, Valveman, Watchman, Sterman, Whitewasher, Wooderman, Wooderwoman, Borryman, Coalman, Condenser, Attendant, Crasscutter, Muchhers Jamadars, Condenser Attendant, Shunters, Any other categories by whatever name called which are of an unskilled nature.	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
	65/-	63/-	52/-

Category of worker**Semi-skilled/Unskilled Supervisory****All inclusive minimum rates of wages (In Rs. per day)**

Belchawala, Bhisti, Bhisti (with Mushk), Boatman (Head), Breaker, Breaker (Rock, Rock Stone, Stone Metal, Stone), Canweaver, Chainman (Head), Charpay, Stringer, Checker, Chowkidar (Head), Security Guard (without arms), Cracker, Daftri, Dollyman Assistant Driller, Driver (Skin), Excavator, Ferroman, Fireman, Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller), Gate Keeper, Charami Thatcher, Classman, Grater, Greaser-cum-Fireman, Grinder, Hammerman, Helper (Artisan), Helper (Sawyer), Jamadar, Kayman, Khalasi (Head Survey, Rivetters-Moplah Gang, Supervisory), Labourer (Rock-Cutting), Lascar, Mali (Head), Mate, Mate (Blacksmith, Road, Carpenter), Engine Driver and/or Feader, Fitter, Gang Khalasi, Mazdoor Mason, Permanent Way, Pump Driver, Turner, Mazdoor (Heavy-weight), Charge-man, Mistri (Head), Muccadam, Night- Guard, Runner (post dak), Oilman, Quarry man, Quarry Operator, Stoneman, Stocker, Thatcher, Stockers and Boilerman, Thoombaman (Spade worker), Tindals, Trollyman (Head, Motor), Fitter (Asstt. Semi- Skilled), Jamadar (Semi-skilled), Mate (Stone), Pump Attendant Bearer, Breakman, Crolder man, Cook Dandee, Frash, Hacksaw man, Helper (Locco-Crane/Truck), Kasab, Khalasi (Structural), Laboratory Boy, Manjhee (Boatman), Masalchi P.M. Mates, Pointsman,

Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
78/-	76/-	63/-

Sencummy, Topaz, Topkar (Big Stone Breaker), Trolly Jamadar, Winchman, Attendance-keeper, Asstt. Wireman, Any other Categories by whatever name called which are of semi-skilled nature.							
<u>Category of worker</u>							
<u>Skilled</u> Asstt. Mistry, Armature Winder Grade-II and III, Bhandari, Blacksmith, Blacksmith (Selection Gr., Grade II, III, Class II & III), Boilerman, Boilerman Gr. II & III, Boiler Foreman Gr.II, Work (Asstt.), Brick Layer, Bricklayer (selection Grade, Class II), Blaster, Carpenter, Carpenter (Selection Grade, Gr. II & III, Class I & III Asstt. B.I.M. Road), Cabinet Taker, Security Guards (With Arms), Caneman, Celotex, Cutter Maker, Chargemen Class II and Class III, Carpenter Ordinary, Checker (Jr.) Chick Maker, Chickman Jr., Concrete Mixture Mixer, Concrete Mixer Operator, Cobbler, Coremaker, Driver, Driver (Motor Vehicle, Motor Vehicle Selection Grade, Motor Lorry, Motor Lorry Grade II, Lorry Grade II, Diesel Engine, Diesel Engine Grade II, Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer etc.), Road Roller, Road Roller Driver Grade II, Driver (Engine Sutic, Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller), Water Pump, Mechanical Asstt. Road Roller, Mechanical Steam Crane, Tractor with Bulldozer, Mechanical Transport, Engine Static & Road Roller, Boiler Attendent Engine, Operator (Stone Crusher Mechanical) Distemprer, Electcician, Electrician (Grade II, Class II & Class III), Fltter, Fitter Class II & III, Asstt., Pipe Class II, Plpe Line Banding Bars for (Selection grade, Grade II & III) reinforcement cum-mechanic, Mechanic (& Plumber), Gharami (Head) , Glazier, Hole Driller for Blasting, Joiner, Joiner (Cable,	 All inclusive minimum rates of wages (in Rs. per day) <table><tr><td>Area 'A'</td><td>Area 'B'</td><td>Area 'C'</td></tr><tr><td>100/-</td><td>94/-</td><td>80/-</td></tr></table>	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'	100/-	94/-	80/-
Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'					
100/-	94/-	80/-					

Cable Grade II), Lineman (Grade II, III, HT/LT), Mason, Mason (selection Grade, Grade II & III class II and III, class B Mistry), Stone (Stone Class II, Brick work, Stone work), Brick-layer, Tile Flooring, B.I.M., Muccadam (Head), Stone cutting, Ordinary Machanism, Mechanic, Mechanic (class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II, Diesel Grade II, Road Roller Grade II, Asstt. Radio), Mason (Gharami), Mintry, Mistry (Grade II, Airconditioning Grade II, P, Vay, Survey, Santras Works), Mason Class A, Moulder, Moulder (Brick, Tile), Painter, Painter (Selection Grade, Grade II & III, Class II, asstt., Lotter and Polisher, Polisher Rough) Plasterer, (Mason Grade II), Plumber, Plumber (Selection Grade, Class II, Asstt. Senior, Junior, Mistry Grade II), Plumbing Mistry, Plumber-cum-Fitter, Polisher, Polisher (Floor), Pump Driver, Pump Driver (Selection Grade, P.E. Driver, Pump man, Pumpman (Asstt., Plumber, Polisher (with spray) Grade II, Ratan Man, Rivet Cutter (Asstt.) Rivetter, Rivetter (Cutter), Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer, Rod Bender, sawyer (Selection Grade Class II), Serang, Serangpille Driving Pantooms with Boiler, Shapesman, Shift incharge, Sprayman, Sprayman (Roads), Stone Cutter, Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II), Stone Chisler, Stone Chisler (Class II), Stone Blasterer, Sub-Overseer (Unquilified), Surveyors, Surveyors (Asstt.), Tailor, Tailor ((Upholstry), Trasprayer, Tar man, Liner man, Tiler Class II, Wall (Floor, Roof), Tiler (Selection Grade) Tin-Smith, Tin Smith, (Selection Grade, Grade II and III, Class II), Tinker, Trailors, Turner, Upholsterer, Upholsterer (Grade II and III), Painter spray (Class II), Wood Cutter, Wood Cutter Selection Grade, Wood Cutter Class II, Work Sircar, Welder, Welder Gas, Welder (Class II, Bridge work), Well Sinkers, White Washer, White Washer (Selection Grade, Class II), Wireman, Wireman (Grade II & III, Mechanic, Electrical), White Washing & Colour Washing man, Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter), Boreman, Borer, Chipper, Chipper-cum-Griner, Cook (Head), Driller, Driller (Well boring), Driver

(Loco/Truck), Electrician (Asstt.), Mechanic (Tube-well), Mistry (Stell, Tube-well, Telephone), Meter Reader, Meteorological Observer, Navghani, Operator (Batching Plant, Cinema Project, Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Gragline Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Driving, Scraper, Screening Plant, Shovel, Tractor, Vibrator, Weight Batchers), Railway Guards, Repairer (Battery), Sharper/Slotter, Sprayer (Asphalt), Station Master, Surveyor (Silt), Trades-man, Train Examiner, Turner/Miller, Tyre Vulcaniser, any other categories by whatever name called which are of a skilled nature.

HIGHLY SKILLED

Armature Winder Grade I, Blacksmith Grade I and Class I, Boilerman Grade I, Boilerman Foreman Grade I, Brick Layer Class I, Cable Janer Grade I, Carpenter Grade I and Class I, Celo Cutter and Decorator, Chargeman Class I, Checker (Sr.), Driver Lorry Grade I, Motor Lorry Grade I, Lower Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I, Road Roller Grade I, Pump Grade I, Pump Class I, Electrician Grade I and Class I, Fitter (Grade I, Class I), Pipe Class I (Head), Foreman (Asstt.), Line Man Grade I, Mason (Skilled Grade I, Class I), Mast Rlg, Mechanic Class I and Class II, Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I, Airconditioning Grade I & Class I, Mistry Grade I, Mistry (Airconditioning Grade I), Overseer, overseer (Senior & Jounior), Painter (Grade I, Class I), Mistry Grade I, Polisher (With Spray Grade I, Road Inspector Grade I, Sawyer Class I, Stone Cutter Class I, Stone Cutter Grade I, Stone Chisier Class I, Stone Mason Class I, Sub-Oversear (Qualified) Class I, Tinsmith Grade I and Class I, Upholsterer Grade I, Varnisher Class I, Welder-cum-Fitter and Air Conditioning Mechanic, Welder (Gas) Class I, White Washer Class I, Wireman Grade I & Class I, Wood Cutter Class I, Griner (Tool) Grade I, Operator (Batching Plant Grade I, Clamp Shell Grade I, Compressor Grade I, Crane Grade I, Diesel Engine Grade I, Dozer

Minimum rates of wages (in Rs. per day)

Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
118/-	116/-	94/-

Grade I, Dragline Grade I, Drill Grade I, Dumper Grade I, Excavator Grade I, Lift Grade I, Generator Grade, Grader Grade I, Leader Grade I, Pile Driving Grade I, Pump Grade I, Scraper Grade I, Screening Plant Grade I, Shovel Grade I, Shovel and Dragline, Tractor Grade I, Vibrator Grade I, Rigger Grade, Rigger Grade II, Sharper/Sletter Grade I, Tradesman Class I, Turner/Miller Grade I, Tyre Vulcaniser Grade I, Work (Asstt.) Grade I Any other categories by whatever name called which are of highly skilled nature.

CLEICAL

M.C.Clerk, Munshi (Matriculate, Non-Matriculate), Store Clerk (Matriculate, Non-Matriculate), Store Issuer, Store Keeper, Store Keeper (Grade I, Grade II, Matriculate, Non-Matriculate), Tally Clerk, Time Keeper, Time Keeper (Matriculate, Non-Matriculate), Book Keeper, Work Munshi, Work Munshi (Subordinate), Accounts Clerk, Clerks, Computer, Telephone Operator, Typist, any other categories by whatever name called which are of a clerical nature.

Minimum rates of wages
(in Rs. per day)

Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
100/-	94/-	80/-

PART III

Rate of Special Allowance for every point rise or fall in Consumer Price Index (IW) Number beyond 448 points which is the six monthly average of C.P.I. (IW) for the period ending June, 2001.

	Area 'A'	Area 'B'	Area 'C'
1. Unskilled	15 Paise	14 Paise	12 Paise
2. Semiskilled/ Unskilled-Supervisor	17 Paise	17 Paise	14 Paise
3. Skilled & Clerical	22 Paise	21 Paise	18 Paise
4. Highly Skilled	26 Paise	26 Paise	21 Paise

EXPLANATION

(1) (a) For the purpose of this Notification Area 'A' and Area 'B' in Annexure to this Notification shall respectively comprise all the places as specified in the said annexure as such areas, and include all places within a distance of fifteen kilometres from the periphery of a Municipal Corporation or Municipality or Cantonment Board or Notified Area Committee of a particular plan, and areas 'C' shall comprise of all the other places not mentioned in the Annexure and to which the Minimum wages Act, 1948 extends.

(b) The places added or upgraded from time to time by the Ministry of Finance for the purpose of payment of H.R.A. to Central Government employees shall be taken to be added from such dates for the purpose of classification specified in the annexure.

(2) Employees employed in the employment in the Construction or maintenance of roads or in building operations, in stone breaking and stone crushing, in the Construction & maintenance of runways in 'C' class areas where the minimum rates of wages have been fixed on areawise basis & where the Central Government has sanctioned payment of winter allowance or hill allowance or any other special allowance shall be paid in addition to the minimum rates fixed by this notification, an amount equal to 10% of the minimum rates of wages so fixed.

In the places, which are at the height of over 6000 feet above sea level, 10% extra wages will be paid.

(3) Minimum rates of wages & special allowance both constitute the minimum rates of wages to be enforceable under the M.W.Act, 1948.

HIGH RISE BUILDINGS

(4) Workers employed on high rise buildings i.e., on or above 4th Floor or over 30 feet height, even for one hour in a day shall be paid 20% extra wages of the minimum wages for the appropriate category.

(5) Where in any area the minimum rates of wages fixed by this notification are lower than the minimum rates of wages fixed by the State Government for employees in employment in the construction or maintenance of roads or in building operation, in stone breaking or stone crushing, in the maintenance of runways, in relation to which the State Govt. is the appropriate Government, the rates of wages fixed by the State Government shall in respect of these areas, be deemed to be the minimum rates of wages payable under this notification.

(6) Workers employed on tunnel working shall be paid 20 per cent extra of the minimum wages fixed under this notification for the appropriate category.

(7) (a) “Unskilled Work” means work which involves simple operations requiring little or no skill or experience on the job.

(b) “Semi Skilled Work” means work which involves some degree of skill or competence acquired through experience on the job and which is capable of being performed under the supervision or guidance of a skilled employee and includes unskilled supervisory work.

(c) “Skilled Work” means which involves skill or competence acquired through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiative and judgement.

(d) “Highly Skilled Work” means work which calls for a high degree of perfection and full competence in the performance of certain tasks acquired through intensive technical or professional training or practical work-experience for long years and also requires a worker to assume full responsibility for the judgement or decisions involved in the execution of these tasks.

(8) The minimum rates of wages fixed by this notification are applicable to employees engaged by the contractors also.

(9) The minimum rates of wages shall consist of all inclusive rates and include also the wages for weekly day of rest.

(10) The minimum rates of wages payable to young persons below 18 years of age and for disabled persons shall be 80% and 100% respectively of the rates fixed by this notification for adult workers of the appropriate category.

[F. No. S. 32017/4/99-WC(MW)]

Dr G. S. RAM, Labour and Employment Adviser

Annexure

AREA 'A'

<u>Ahmedabad (UA)</u>	<u>Mumbai</u>	<u>Chennai (UA)</u>
<u>Bangalore (UA)</u>	<u>Hyderabad (UA)</u>	<u>Nagpur (UA)</u>
<u>Kolkata (UA)</u>	<u>Kanpur</u>	<u>Delhi (UA)</u>
<u>Lucknow</u>		

AREA 'B'

<u>Agra (UA)</u>	<u>Ghaziabad (UA)</u>	<u>Meerut (UA)</u>
<u>Ajmer (UA)</u>	<u>Gorakhpur (UA)</u>	<u>Moradabad (UA)</u>
<u>Aligarh (UA)</u>	<u>Guwahati</u>	<u>Mysore (UA)</u>
<u>Allahabad (UA)</u>	<u>Guntur</u>	<u>Nasik (UA)</u>
<u>Amaravati (UA)</u>	<u>Gwalior (UA)</u>	<u>Pune (UA)</u>
<u>Amritsar</u>	<u>Hubli-Dharwad</u>	<u>Patna (UA)</u>
<u>Aurangabad (UA)</u>	<u>Indore</u>	<u>Raipur</u>
<u>Bhavanagar/Bhopal</u>	<u>Jabalpur (UA)</u>	<u>Rajkot</u>
<u>Bikaner</u>	<u>Jaipur (UA)</u>	<u>Ranchi (UA)</u>
<u>Bhubaneswar</u>	<u>Jalandhar</u>	<u>Sholapur (UA)</u>
<u>Calicut (UA)</u>	<u>Jamshedpur (UA)</u>	<u>Srinagar (UA)</u>
<u>Chandigarh (UA)</u>	<u>Jodhpur</u>	<u>Surat (UA)</u>
<u>Cochin (UA)</u>	<u>Kolhapur</u>	<u>Thiruvananthapuram (UA)</u>
<u>Coimbatore (UA)</u>	<u>Kalyan</u>	<u>Ulhasnagar</u>
<u>Cuttack (UA)</u>	<u>Kochi</u>	<u>Vadodara (UA)</u>
<u>Durgapur</u>	<u>Kota</u>	<u>Varanasi (UA)</u>
<u>Faridabad Complex</u>	<u>Kozhykode</u>	<u>Vijayawara (UA)</u>
	<u>Ludhiana</u>	<u>Vishakhapatnam (UA)</u>
	<u>Madurai (UA)</u>	<u>Waranga</u>

AREA : "C" will comprise all areas not mentioned in this list.

N.B. : U.A. stands for Urban Agglomeration.